



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 11.11.2020

1-थाना नालेज पार्क पुलिस व बदमाशो के बीच मुठभेड मे गौतस्कर 01 बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से मो0सा0 स्पेलेन्डर प्लस व एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कार0 315 बोर एक खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 10.11.2020 को थाना नालेज पार्क पुलिस व मो0सा0 सवार बदमाशो के बीच शारदा गोलचक्कर से आगे गुर्जरपुर पुस्ता नालेज पार्क पर मुठभेड के दौरान मोटर साइकिल सवार अभियुक्त सलमान पुत्र सरफराज निवासी नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद घायल /गिरफ्तार, जिसके विरूद्ध गौकशी व चोरी के कई अभियोग दर्ज है तथा मुठभेड के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश सिराजुद्दीन उर्फ सिराजू पुत्र मुख्तयार निवासी ग्राम सूरजपुर थाना सूरजपुर मूल पता तुगलपुर थाना नालेज पार्क फरार हो गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मो0सा0 व अवैध शस्त्र बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण-

सलमान पुत्र सरफराज निवासी नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान पुत्र सरफराज-

1. मु0अ0स0 380/2020 धारा 307,411,482 भादवि थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 279/2020 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 710/15 धारा 25/27 धारा 5/8 गौवध अधि0, 102, 41 सीआरपीसी धारा 147, 148, 149, 307,411,414,420 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

4. मु0अ0स0 712/15 धारा 5/8 गौवध अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद
5. मु09अ0स0 839/15 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
6. मु0अ0स0 320/16 धारा 307/420 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
7. म0अ0स0 322/16 धारा 5/8 गौवध अधि0 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
8. मु0अ0स0 656/19 धारा 379 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. मोटर साइकिल स्पेलेन्डर प्लस नम्बर यूपी 16 बी डब्लू 0517
2. एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कार0 315 बोर एक खोखा कारतूस

2- थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्कूटी व 01 पेटी मिस इण्डिया मार्का अवैध शराब बरामद।

दिनांक 11.11.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर सोमबीर पुत्र नरेन्द्र निवासी नंगला मानसी महरहर जिला एटा वर्तमान पता ईश्वर का मकान ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को घोड़ी बछेड़ा निष्पी होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे कब्जे से 01 पेटी अवैध शराब देशी मिस इण्डिया मार्का उ0प्र0 व स्कूटी यूपी 16 बीआर 8395 बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-

सोमबीर पुत्र नरेन्द्र निवासी नंगला मानसी महरहर जिला एटा वर्तमान पता ईश्वर का मकान ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 767/2020 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. स्कूटी यूपी 16 बीआर 8395
2. 01 पेटी देशी अवैध शराब

3- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा जुआ खेलने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3130

रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद।

दिनांक 11.11.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा जुआ खेलने वाले तीन अभियुक्तों
1. अन्नद पुत्र प्रवेश कुमार निवासी चेताराम स्कूल के पास सेक्टर 45 सदरपुर नोएडा 2. अमरजीत पुत्र
मंगतू निवासी कालू का मकान सेक्टर 45 सदरपुर नोएडा सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर 3. महेन्द पाल पुत्र
विरौजी निवासी सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर को सोम बाजार के पास सर्विस
रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3130 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद किये गये
है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. अन्नद पुत्र प्रवेश कुमार निवासी चेताराम स्कूल के पास सेक्टर 45 सदरपुर नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. अमरजीत पुत्र मंगतू निवासी कालू का मकान सेक्टर 45 सदरपुर नोएडा सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर
3. महेन्द पाल पुत्र विरौजी निवासी सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 669/2020 धारा 13 जुआ अधि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 3130 रूपये
2. 52 ताश के पत्ते बरामद

4- थाना दनकौर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.11.2020 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 479/2020 धारा 363,376
भादवि0 व 3/4 पोक्सो अधि0 के अंतर्गत दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त शिव उर्फ शिबू पुत्र संतोष निवासी
ग्राम धनौरी कलां थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता जनता प्रीत नगर दशहरा ग्राउण्ड फिरोजपुर
शहर पंजाब को अभियुक्त के निवास गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

शिव उर्फ शिबू पुत्र संतोष निवासी ग्राम धनौरी कलां थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता जनता
प्रीत नगर दशहरा ग्राउण्ड फिरोजपुर शहर पंजाब

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 479/2020 धारा 363,376 भादवि0 व 3/4 पक्सो अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

5- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा हत्या के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त साडी व बेलन बरामद।

दिनांक 19.10.2020 को श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बेगराज निवासी ग्राम याकूबपुर थाना फेस 2 नोएडा ने थाना फेस 2 नोएडा पर सूचना दी थी कि उनके मकान मे किराये पर रहने वाले रजनीश अपनी पत्नी श्रीमती सपना की हत्या कर भाग गया है। सूचना पर मु0अ0सं0 625/20 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 11.11.2020 को अभियुक्त रजनीश उर्फ सोनू उर्फ ओमपाल पुत्र मनोज निवासी जबापुर थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी वर्तमान पता सुनील भाटी का मकान याकूबपुर थाना फेस 2 नोएडा को नंगलाचरण दास तिराहा दादरी रोड़ से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/18 की रात में उसके द्वारा सपना की साडी से गला दबा कर मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो बेलन से सर पर प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी, अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल सुनील भाटी का मकान याकूबपुर अभियुक्त के कमरे से सर पर प्रहार किये गये बेलन व गला घोटने मे प्रयुक्त साडी बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रजनीश उर्फ सोनू उर्फ ओमपाल पुत्र मनोज निवासी जबापुर थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी वर्तमान निवासी सुनील भाटी का मकान याकूबपुर थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 625/20 धारा 302 भादवि0 थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त बेलन व गला घोटने मे प्रयुक्त साडी

प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक कारणों से आत्महत्या करने जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को डायल 112 ने आर्थिक मदद कर आत्महत्या करने से रोका।

दिनांक 11.11.2020 को पीआरवी 4665 समय 11:30 बजे (फील्ड इवेंट 3856) पर थाना सेक्टर 39 क्षेत्रान्तर्गत अपने निर्धारित प्वाइंट पर खड़ी थी कि तभी एक ठेले वाले ने बताया कि यहाँ पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति मेडिकल स्टोर से चूहे मारने वाली दवा खरीदकर आत्महत्या करने स्टेलर ग्रीन पार्क में गया है। सूचना पर पीआरवी ने तत्काल मौके पर पहुँचकर देखा कि पार्क में लगे बेंच पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग हाथ में जहर लिये बैठा हुआ था। पीआरवी ने जानकारी की तो बुजुर्ग ने बताया कि कोरोना के कारण मेरी नौकरी चली गयी है और घर में जो पैसे बचे थे वह भी खत्म हो गये हैं, जिसके कारण मैं जहर खाकर आत्महत्या करने जा रहा था। पीआरवी कर्मियों द्वारा बुजुर्ग को काफी समझा-बुझाकर आत्महत्या करने से रोका गया। पीआरवी पर तैनात कमाण्डर हैप्पी फर्शवाल व पायलट विपिन कुमार ने बुजुर्ग को अपना काम शुरू करने के लिये अपने पास से 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की जिस पर स्थानीय लोगो द्वारा पीआरवी कर्मियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 9.11. 2020 को रेखा पत्नी सुरेश सिंह निवासी सेक्टर 121 नोएडा ने थाना बिसरख आकर सूचना दी कि उसका पुत्र शिवम राणा उम्र 21 वर्ष जो 8 तारीख की रात को 1100 बजे अपने दोस्त को एक मूर्ति गोल चक्कर छोड़ने आया था, घर वापस नहीं पहुंचा है, सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस टीम की सहायता से गुमशुदा शिवम को नागपुर महाराष्ट्र से बरामद किया गया है, गुमशुदा ने पूछताछ में बताया कि वह अपने परिजनो से झगड़ा होने के बाद बिना बताये चला गया था। पुलिस द्वारा शिवम को परिजनो के सुपुर्द किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार के यातायात माह के तहत व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम

जनपद के यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यातायात माह के तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस के द्वारा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए जनपद के वाहन चालकों को जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस कड़ी में आज यातायात माह के अवसर पर आज दिनांक 11-11-2020 को यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा निम्न कार्यवाही की गई।

1- यातायात पुलिस द्वारा गलगोटिया कॉलेज ग्रेटर नोएडा में छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर रैली निकाली गई तथा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

2- यातायात पुलिस द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान में 50 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

